

## MP BOARD CLASS 12 PAPER 2014

### गणित : कक्षा XII

#### खण्ड 'अ'

1. प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए—

5 × 1 = 5

(i) व्यंजक  $\frac{2x+3}{(x+1)(x-3)} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x-3}$  तो  $a+b =$

(a) 0, (b) 1, (c) 2, (d) 3.

(ii)  $\sin \left[ \sin^{-1} \frac{1}{2} + \cos^{-1} \frac{1}{2} \right]$  का मान होगा—

(a) 1, (b) 2, (c)  $\frac{1}{2}$ , (d)  $\frac{1}{4}$ .

(iii) z-अक्ष के समान्तर समतल का समीकरण—

(a)  $ax + by + d = 0$ , (b)  $bx + cz + d = 0$ ,  
(c)  $by + cz + d = 0$ , (d) इनमें से कोई नहीं।

(iv) यदि  $y = \log [\log (\log x)]$  हो, तो  $\frac{dy}{dx}$  का मान होगा—

(a)  $\frac{1}{x \log x}$ , (b)  $\frac{1}{x \log x \log (\log x)}$ ,  
(c)  $\frac{1}{x \log (\log x)}$ , (d)  $\frac{1}{x}$ .

(v) गोले  $6x^2 + 6y^2 + 6z^2 - 16x + 9z - 6 = 0$  के केन्द्र के निर्देशांक हैं—

(a)  $\left( \frac{3}{4}, 0, \frac{4}{3} \right)$ , (b)  $(-16, 0, 9)$ ,  
(c)  $(-8, 0, \frac{9}{2})$ , (d)  $\left( \frac{4}{3}, 0, \frac{-3}{4} \right)$ .

उत्तर—(i) (c), (ii) (a), (iii) (a), (iv) (b), (v) (d).

2. निम्नलिखित कथनों में सत्य/असत्य लिखिए—

5 × 1 = 5

(a) मूल बिन्दु से समतल  $6x - 3y + 2z + 14 = 0$  की दूरी 2 है।

(b) सहसम्बन्ध गुणांक का मान सदैव 2 होता है।

(c) अचर पद का समाकलन शून्य होता है।

(d) सदिश  $\vec{a}$  के अनुदिश एकांक सदिश  $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$  है।

(e) यदि बिन्दुओं P और Q के स्थिति सदिश क्रमशः  $\hat{i} + 3\hat{j} - 7\hat{k}$  और  $5\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k}$  हों, तो  $|PQ|$  का मान  $9\sqrt{2}$  होगा।

उत्तर—(a) सत्य, (b) असत्य, (c) असत्य, (d) सत्य, (e) सत्य।

3. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

5 × 1 = 5

(a)  $e^{ax}$  का  $n$ वाँ अवकलज ..... है।

(b) पूर्ण सहसम्बन्ध होने पर दोनों समाश्रयण रेखाएँ ..... होती हैं।

(c) सदिश  $\vec{b}$  का  $\vec{a}$  की दिशा में प्रक्षेप ..... होगा।

(d)  $2x + 3y$  का न्यूनतम मान, जब  $xy = 6$  है ..... होता है।

(e) Y-अक्ष की दिक्-कोज्याएँ ..... होती हैं।

उत्तर—(a)  $a^n \cdot e^{ax}$ , (b) सम्पाती, (c)  $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|}$ , (d) 12, (e) (0, 1, 0).

- (c) 2 का घनमूल दशमलव के तीन स्थान तक (iii) 1.258  
 (d) समलम्ब चतुर्भुजीय नियम (iv)  $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$   
 (e)  $n = 4$  लेकर सिम्पसन नियम से (v) 1.25  
 $\int_0^2 x^2 dx$  का सन्निकट मान (vi)  $\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} [(y_0 + y_n) + 2(y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1})]$ ;  
 जहाँ  $h = \left(\frac{b-a}{n}\right)$

उत्तर—(a) → (iv), (b) → (i), (c) → (iii), (d) → (vi), (e) → (ii).

5. प्रत्येक का एक शब्द/वाक्य में उत्तर दीजिए— 5 × 1 = 5

(a)  $\int e^x (\sin x + \cos x) dx$  का मान क्या होगा ?

(b)  $\int_0^{\pi/2} \sin x dx$  का मान क्या होगा ?

(c)  $\int_0^{\pi/2} \log (\sin x) dx$  का मान क्या होगा ?

(d)  $\int_0^{\pi} |\cos x| dx$  का मान क्या होगा ?

(e)  $\int \frac{\cot x}{\log (\sin x)} dx$  का मान क्या होगा ?

उत्तर—(a)  $e^x \cdot \sin x$ , (b) 1, (c)  $\frac{\pi}{2} \log \frac{1}{2}$ , (d) 2, (e)  $\log (\log \sin x)$ .

### खण्ड 'ब'

6. किसी चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD हों, तो सिद्ध कीजिए :

$$\vec{AB} + \vec{DC} = \vec{AC} + \vec{DB}. \quad 2 \text{ अथवा}$$

यदि  $\vec{a} = 2\hat{i} - 5\hat{j} + 8\hat{k}$ ,  $\vec{b} = \hat{i} - 3\hat{j} - \hat{k}$ ,  $\vec{c} = -3\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$  हो, तो  $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$  ज्ञात कीजिए।

7. गोले का सदिश समीकरण तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केन्द्र (2, -3, 4) तथा त्रिज्या 5 है। 2 अथवा

उस गोले का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो गोले  $|\vec{r} + (\hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k})| = 5$  के संकेन्द्री है और जो इससे दोगुनी त्रिज्या का है।

8. यदि  $\vec{a} = 2\hat{i} + 5\hat{j} + 8\hat{k}$ ,  $\vec{b} = \hat{i} + 3\hat{j} + 7\hat{k}$  तथा  $\vec{c} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$  हो, तो  $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$  का मान ज्ञात कीजिए। 2 अथवा

एक कण पर बल  $\vec{F} = 4\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$  क्रिया करके उसे बिन्दु (1, 2, 3) से (5, 4, 1) तक विस्थापित कर देता है। किया गया कार्य ज्ञात कीजिए।

9.  $\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$  का मान ज्ञात कीजिए। 2 अथवा

$\int \frac{1}{1 - \sin x} dx$  का मान ज्ञात कीजिए।

10.  $\int \log_e x dx$  का मान ज्ञात कीजिए। 2 अथवा

$$\int \frac{\sec x}{(\sec x - \tan x)} dx \text{ को हल कीजिए।}$$

11. निम्नांकित भिन्न को आंशिक भिन्न में विभक्त कीजिए :

$$\frac{x^2 + 7x}{x^2 + 7x - 8} \quad 4 \text{ अथवा}$$

यदि  $\frac{1}{x^3 - 2x^2 - x + 2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-2}$  हो, तो  $A + B + C$  का मान ज्ञात कीजिए।

12. समीकरण  $\tan^{-1} x + 2 \cot^{-1} x = \frac{2\pi}{3}$  को हल कीजिए। 4 अथवा

सिद्ध कीजिए कि :  $\sec^2(\tan^{-1} 2) + \operatorname{cosec}^2(\cot^{-1} 3) = 15$ .

13. यदि  $y = \sin(2 \sin^{-1} x)$  हो, तो सिद्ध कीजिये कि :

$$\frac{dy}{dx} = 2 \sqrt{\frac{1-y^2}{1-x^2}} \quad 4 \text{ अथवा}$$

यदि  $y = \tan^{-1}\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)$  हो, तो  $\frac{dy}{dx}$  ज्ञात कीजिए।

14.  $\sec x$  का अवकल गुणांक प्रथम सिद्धान्त से ज्ञात कीजिए। 4 अथवा

यदि  $y = \log \sqrt{\frac{1 - \cos 3x}{1 + \cos 3x}}$  हो, तो  $\frac{dy}{dx}$  का मान ज्ञात कीजिए।

15. यदि लाभ फलन  $P(x) = 41 + 24x - 18x^2$  है, तो कम्पनी द्वारा प्राप्त किया गया उच्चिष्ठ लाभ ज्ञात कीजिए। 4 अथवा

एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेमी/सेकण्ड की एक समान दर से बढ़ रही है। गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि किस दर से होगी जबकि उसकी त्रिज्या 15 सेमी हो ?

16. निम्नांकित आँकड़ों से सहसम्बन्ध गुणांक की गणना कीजिए— 4

$x$	3	10	8	6	8
$y$	15	17	4	5	4

अथवा

यदि दो चर राशियों  $x$  और  $y$  का सहसम्बन्ध गुणांक  $r$  है, तो सिद्ध कीजिए कि :

$$r = \frac{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_{x-y}^2}{2\sigma_x\sigma_y}$$

17. निम्नलिखित आँकड़ों से समाश्रयण रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए : 4

$x$	2	4	6	8	10
$y$	6	5	4	3	2

अथवा

निम्नलिखित आँकड़ों से  $y$  का मान ज्ञात कीजिए जब  $x = 70$  तथा सहसम्बन्ध गुणांक 0.8 है :

http://www.a2zsubjects.com

	$x$	$y$
माध्य	18	100
मानक विचलन	14	20

18. दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनकी दिक् कोज्याएँ समीकरण  $l + m + n = 0$  तथा  $2l + 2m - mn = 0$  द्वारा प्राप्त की जा सकती है। 5 अथवा  
समतलों  $x + 3y + 6 = 0$  तथा  $3x - y + 4z = 0$  के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतलों के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी मूल बिन्दु से दूरी 1 है।

19. यदि  $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos 4x}{x^2}; & x \neq 0 \\ 4 & ; x = 0 \end{cases}$   
तो  $f(x)$  के  $x = 0$  पर सांतत्य की विवेचना कीजिए। 5 अथवा

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6^x - 1}{\sqrt{3-x} - \sqrt{3}}$  का मान ज्ञात कीजिए।

20. दीर्घवृत्त  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$  का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 अथवा

मान ज्ञात कीजिए :  $\int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$ .

21. अवकल समीकरण  $(1 + x^2) \frac{dy}{dx} + 2xy = 4x^2$  को हल कीजिए। 5 अथवा

निम्नांकित समजातीय अवकल समीकरण को हल कीजिए—

$(x^2 + y^2) dx + 2xy dy = 0$ .

22. दो घनाकार पाँसे एक साथ फेंके जाते हैं। पहले पाँसे पर विषम संख्या अथवा दोनों पाँसों की ऊपरी संख्याओं का योग 9 प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5 अथवा  
एक सिक्का दो बार उछाला जाता है। शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए।

23. उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिन्दुओं  $(3, 0, 0)$ ,  $(0, -1, 0)$  और  $(0, 0, -2)$  से गुजरे तथा जिसका केन्द्र समतल  $3x + 2y + 4z = 1$  पर स्थित हो।

6 अथवा

सिद्ध कीजिए कि रेखाएँ  $\frac{x+1}{3} = \frac{y+3}{5} = \frac{z+5}{7}$  एवं

$\frac{x-2}{1} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-6}{5}$  परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद बिन्दु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

24. सदृश विधि से सिद्ध कीजिए :

$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta$ . 6 अथवा

यदि D, E, F क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA, AB के मध्य बिन्दु हों, तो सदृश विधि से सिद्ध कीजिए कि

$\Delta DEF = \frac{1}{4} \Delta ABC$ .